

INTERNATIONAL INDIAN SCHOOL, DAMMAM

UPPER PRIMARY SECTION

SUMMATIVE ASSESSMENT - I (June - 2013)

SUBJECT: HINDI TIME: 2 hours MARKS: ORALS = /10
Name: _____ CLASS V Sec: _____ Roll No: _____ WRITTEN = /50
TOTAL = /60

Instructions:

1. Read the questions carefully and attempt all.
2. Read your paper thoroughly before submission.

(भाग १)

प्रश्न १. सही उत्तर पर सही (✓) का निशान लगाइए -

(1/2x6=3)

१. हवा का झोंका लगने से कौन बुझ गया ?

(अ) सूर्य (ब) चंद्रमा (स) दीया

२. कोई भी कार्य किसके बिना करना चाहिए ?

(अ) सम्मान के (ब) अभिमान के (स) परिश्रम के

३. पुराने समय में झंडे का उपयोग किन्होंने शुरू किया था ?

(अ) सिपाहियों ने (ब) शिकारियों ने (स) शिकारियों और सिपाहियों ने

४. पुराने समय में लोगों ने किन चीजों से झंडे बनाए थे ?

(अ) धातु से (ब) कपड़ों से (स) पशु-पक्षियों की चमड़ी और पंखों से

५. आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है ?

(अ) दुनिया (ब) सागर (स) आसमान

६. संसार में किसका दुष्परिणाम होता है ?

(अ) सम्मान का (ब) स्वाभिमान का (स) अहंकार का

प्रश्न २. सही कथन पर सही (✓) और गलत कथन पर गलत (x) का निशान लगाइ

(1/ 2x6=3)

- १- सूर्य और चंद्रमा को अपनी महानता का अंकार हो गया । ()
- २- आँधी और तूफान भी नक्षत्रों का प्रकाश नहीं बुझा सके । ()
- ३- सभी झंडों में तीन रंग होते हैं। ()
- ४- दीपक के मस्तक पर सम्मान का तिलक लगाया गया । ()
- ५- सबसे पहले विभिन्न देशों ने झंडे का उपयोग शुरू किया था । ()
- ६- सजे-धजे लट्ठों की बनावट पंछियों या जानवरों जैसी होती थी । ()

प्रश्न ३. नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए -(any 6)

(1/2x6=3)

- | | |
|-------------------|--------------------|
| १. रेख - _____ | ५. विभिन्न - _____ |
| २. सतत - _____ | ६. नक्षत्र - _____ |
| ३. उपयोग - _____ | ७. प्रतीक - _____ |
| ४. अभिमान - _____ | ८. पराजय - _____ |

प्रश्न ४. नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए -(any 3)

(1/2x6=3)

- | | |
|------------------|-------|
| १. सूर्य - _____ | _____ |
| २. दल - _____ | _____ |
| ३. चाँद - _____ | _____ |
| ४. झंडा - _____ | _____ |

प्रश्न ५. नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए --(any 4)

(1/2x4=)

- | | |
|-----------------------|------------------|
| १. पराजय x _____ | ४. सफेद x _____ |
| २. सृष्टि x _____ | ५. महान x _____ |
| ३. दुष्परिणाम x _____ | ६. उपयोग x _____ |

प्रश्न ६. नीचे दिए गए शब्दों को शुद्ध करो -

(1/2x6=3)

- | | |
|------------------|--------------------|
| १. परकाश - _____ | ४. विभिन्न - _____ |
| २. विशव - _____ | ५. दिपक - _____ |
| ३. तुफान - _____ | ६. उजीयार - _____ |

प्रश्न ७. नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए - (any 2)

(1x2=2)

- | |
|------------------|
| १. महान - _____ |
| २. युद्ध - _____ |
| ३. दीया - _____ |

प्रश्न ८. उचित स्थानों पर रेफ($\frac{r}{l}$) और पदेन($\frac{r}{l}$) लगाकर शब्द पूरे कीजिए और लिखिए-

(1/2x6=3)

- | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|
| १. सूय - _____ | ३. गव - _____ | ५. धैय - _____ |
| २. चंद - _____ | ४. पयास - _____ | ६. पकाश - _____ |

प्रश्न ९. कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए -

(1/ 2x10=5)

शशि भी _____ नहीं पाता है, अंदर का _____ ।

मैं ही _____ के कोने-कोने को करता _____ ।

इस _____ में सिर _____ कर, लगा _____ में दृष्टि ।

_____ की आँखों से _____, देख रहा था _____ ।

प्रश्न १०. उचित शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए -

(1/2x4=2)

वेक्सिलोलाजी , कलंक , सफ़ेद , नीदरलैंड

१. दीये के बुझने के बाद उसके मस्तक पर _____ की रेखा खिंच गई ।

२. झंडे का अध्ययन _____ कहलाता है ।

३. _____ ऐसा पहला देश था, जिसने तीन रंग के झंडे का प्रयोग किया ।

४. युद्ध में _____ झंडा हिलाना पराजय स्वीकार करने का चिह्न है ।

(भाग २)

श्न १. दिए गए वाक्यों में उचित विशेषण शब्द लिखिए -

(1/2x6=3)

प्रथम , गहरी , चार , सुंदर , मीठा , चचेरा

१. _____ झील में बत्तखें तैर रही है

२. रोहन कक्षा में _____ आया ।

३. मुझे _____ मीटर कपड़ा चाहिए ।

४. अली मेरा _____ भाई है ।

५. आम _____ है ।

६. फूल बहुत _____ है ।

प्रश्न २. निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छाँटकर लिखिए -

(1/2x6=3)

१. मकड़ी के आठ पैर होते हैं ।

२. हमें धुले कपड़े पहनने चाहिए ।

३. हम पाँचवी कक्षा के छात्र हैं ।

४. कुछ लोग बाहर खड़े हैं ।

५. पिता जी एक बड़े से घर में रहते हैं ।

अपठित गद्यांश

निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए- (1x5=5)

स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है । यदि हम पौष्टिक भोजन करेंगे तो हमारा शरीर और मस्तिष्क दोनों ही स्वस्थ रहेंगे । केवल स्वाद के लिए नहीं शरीर की आवश्यकता के अनुकूल भोजन करना चाहिए । संतुलित और पौष्टिक भोजन से शरीर स्वस्थ और बलवान बनता है । चिप्स, बर्गर, पिज्जा आदि खाने से शरीर मोटा और अस्वस्थ हो जाता है । इसलिए पौष्टिक भोजन करो और अपने तन और मन दोनों को स्वस्थ रखो ।

प्र १. स्वस्थ शरीर में किसका निवास होता है ?

प्र २. किस प्रकार के भोजन से हमारा शरीर और मस्तिष्क दोनों ही स्वस्थ रहेंगे ?

प्र ३. किसकी आवश्यकता के अनुकूल भोजन करना चाहिए ?

प्र ४. क्या खाने से शरीर मोटा और अस्वस्थ हो जाता है ?

प्र ५. उचित शीर्षक पर सही (✓) का चिह्न लगाओ ।

(अ) सुंदर चित्र () (ब) पौष्टिक भोजन () (स) बहादुर बालक ()

I. नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए - (any 4) (1x)

प्र.१ सूर्य का प्रकाश आपको कब मिलता है ?

प्र.२ रात्रि में घर के कोने-कोने को कौन प्रकाशित करता है ?

प्र.३ विश्व का सबसे ऊँचा झंडा कहाँ है ?

प्र.४ दीये का सिर नीचा क्यों हो गया ?

प्र.५ हैती के झंडे में कितने रंग हैं ?

II. नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए - (any 2) (2x2=4)

प्र.१ दीये को किस बात का अभिमान हुआ ?

प्र.२ राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना क्या सिद्ध करता है ?

प्र.३ सबसे पहले कपड़े का झंडा किसने और कब बनाया था ?

III . भारतीय झंडे का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए और रंगों के नाम लिखिए -

(1/2x4=2)